



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1931 (श10)
(सं0 पटना 432) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2009

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

11 अगस्त 2009

सं० नि०प्रा०/नि०1-100/2009/1241—जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सीतामढ़ी के पत्रांक 95मु० दिनांक 05 अगस्त 2009 द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि उक्त जिले का रून्नीसैदपुर प्रखंड बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित है, अतः उक्त प्रखंड का पैक्स निर्वाचन जो प्रथम चरण में अधिसूचित है, को तत्काल स्थगित किया जाय।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सीतामढ़ी की अनुशंसा के आलोक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना की अधिसूचना संख्या 932 दिनांक 23 जुलाई, 2009 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए रून्नीसैदपुर प्रखंड के पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत अधिसूचित किया जाता है—

निर्वाचन कार्यक्रम

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) नामांकन पत्र समर्पित किये जाने की अवधि | : 03-07 अक्टूबर, 2009 |
| (2) संवीक्षा की तिथि | : 08 अक्टूबर, 2009 (गुरुवार) |
| (3) अभ्यर्थिता वापसी की तिथि | : 09 अक्टूबर, 2009 (शुक्रवार) |
| (4) मतदान, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में | : 19 अक्टूबर, 2009 (सोमवार) |
| (5) मतगणना | : 21 अक्टूबर, 2009 (बुधवार) |
| (6) निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | : 23 अक्टूबर, 2009 (शुक्रवार) |

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सीतामढ़ी इस संशोधित चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन जिला गजट / स्थानीय समाचार पत्रों / पैक्स मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 432-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>